

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-63/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. सारागांव नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
वार्ड क्रमांक -1	इंदिरा गांधी आवासीय वार्ड
वार्ड क्रमांक -2	गायत्री मंदिर वार्ड
वार्ड क्रमांक -3	महात्मा गांधी वार्ड
वार्ड क्रमांक -4	सुभाषचंद्र बोस वार्ड
वार्ड क्रमांक -5	मनका दाई वार्ड
वार्ड क्रमांक -6	राजीव गांधी वार्ड
वार्ड क्रमांक -7	ठाकुर देव वार्ड
वार्ड क्रमांक -8	पं.श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
वार्ड क्रमांक -9	भगत सिंह वार्ड
वार्ड क्रमांक -10	अम्बेडकर वार्ड
वार्ड क्रमांक -11	बी.डी.महंत वार्ड
वार्ड क्रमांक -12	दाऊबाबा वार्ड
वार्ड क्रमांक -13	महावीर मंदिर वार्ड
वार्ड क्रमांक -14	छोटे गौटिया वार्ड
वार्ड क्रमांक -15	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

### सारागांव नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

#### वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा गांधी आवासीय वार्ड

उत्तर	उरैहा तालाब से पूर्व की ओर एसएलआरएम सेंटर तक ।
पूर्व	एसएलआरएम सेंटर से दक्षिण की ओर बस स्टैंड माखन हॉटल तक ।
दक्षिण	बस स्टैंड में माखन हॉटल के पश्चिम की ओर मुड़कट्टी माता मंदिर ।
पश्चिम	मुड़कट्टी माता मंदिर से उत्तर की ओर उरैहा तालाब ।

#### वार्ड क्रमांक 02 गायत्री मंदिर वार्ड

उत्तर	छतदार चबूतरा से पूर्व की ओर सरार तालाब के उत्तर पश्चिमी किनारा तक ।
पूर्व	सरार तालाब के उत्तर पश्चिमी किनारा से यश ढाबा चौक तक ।
दक्षिण	यश ढाबा चौक से बस स्टैंड में आत्माराम पांडेय के घर तक ।
पश्चिम	बस स्टैंड में आत्माराम पांडेय के घर से छतदार चबूतरा तक ।

**वार्ड क्रमांक 03 महात्मा गांधी वार्ड**

उत्तर	बस स्टैंड में ओमप्रकाश राठौर के घर से सत्यनारायण राठौर के घर होते हुए नारद के घर तक।
पूर्व	नारद के घर से देवनारायण के घर तक।
दक्षिण	देवनारायण के घर से जीतसिंह राठौर के घर तक।
पश्चिम	जीतसिंह राठौर के घर से बस स्टैंड में ओमप्रकाश के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 04 सुभाषचंद्र बोस वार्ड**

उत्तर	सनत नेंगी के घर से जगत कैंवट घर होते हुए बुनकर भवन तक।
पूर्व	बुनकर भवन से मटरू राठौर के खेत होते हुए हेमंत राठौर के घर तक।
दक्षिण	हेमंत राठौर के घर से पश्चिम की ओर चमार सिंह के घर तक।
पश्चिम	चमार सिंह के घर से सुरेन्द्र देवांगन एवं ईश्वर देवांगन घर होते हुए सनत नेंगी के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 05 मनका दाई वार्ड**

उत्तर	रामलखन राठौर घर से मोहरसाय एवं जगसाय घर होते हुए धजाराम कर्ष के घर तक।
पूर्व	धजाराम कर्ष के घर से रामनारायण कर्ष के घर तक।
दक्षिण	रामनारायण कर्ष के घर से पश्चिम की ओर अखरा तालाब का दक्षिणी पश्चिमी किनारा तक।
पश्चिम	अखरा तालाब के दक्षिण पश्चिम किनारा से रामलखन राठौर के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 06 राजीव गांधी वार्ड**

उत्तर	अंजली फ्यूल्स से घनवा तालाब के उत्तर पूर्वी किनारा तक।
पूर्व	घनवा तालाब के उत्तर पूर्वी किनारे से शिव मंदिर तक।
दक्षिण	शिव मंदिर से नक्टीपार तालाब के दक्षिण पश्चिम किनारा तक।
पश्चिम	नक्टीपार तालाब के दक्षिण पश्चिम किनारा से चमरा तालाब होते हुए अंजली फ्यूल्स तक।

**वार्ड क्रमांक 07 ठाकुर देव वार्ड**

उत्तर	जेडीएम स्कूल से रवि पांडेय के घर तक।
पूर्व	रवि पांडेय के घर से भोजराम यादव के घर होते हुए नवीन बाजार तक।
दक्षिण	नवीन बाजार से उमाशंकर सूर्यवंशी घर के उत्तर पूर्व में स्थित नहर तक।
पश्चिम	उमाशंकर सूर्यवंशी घर के उत्तर पूर्व में स्थित नहर से जेडीएम स्कूल तक।

**वार्ड क्रमांक 08 पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड**

उत्तर	दाऊलाल के घर से माता चौरा मंदिर होते हुए लक्ष्मण सूर्यवंशी घर तक।
पूर्व	लक्ष्मण सूर्यवंशी के घर से सिंचाई कालोनी तक।
दक्षिण	सिंचाई कालोनी से उमाशंकर के घर तक।
पश्चिम	उमाशंकर के घर से दाऊलाल घर तक।

**वार्ड क्रमांक 09 भगत सिंह वार्ड**

उत्तर	रविशंकर दुबे के घर से पूर्व की ओर अर्जुन सूर्यवंशी के घर तक।
पूर्व	अर्जुन सूर्यवंशी के घर से दक्षिण की ओर बजरंग के घर तक।
दक्षिण	बजरंग के घर से सोनू सूर्यवंशी के घर होते हुए जैतकुंवर के घर तक।
पश्चिम	जैतकुंवर के घर से उत्तर की ओर रविशंकर दुबे के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 10 अम्बेडकर वार्ड**

उत्तर	ओमप्रकाश पिता रम्हन के घर से बाराद्वार रोड में सोन नदी के पुल तक।
पूर्व	बाराद्वार रोड में सोन नदी पुल से रघुनाथ के खेत तक।
दक्षिण	रघुनाथ के खेत से रतनलाल के घर तक।
पश्चिम	रतनलाल के घर से ओमप्रकाश पिता रम्हन के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 11 बी.डी.महंत वार्ड**

उत्तर	संजय दुबे के घर से रामकिशन सोनवान के घर तक।
पूर्व	रामकिशन सोनवान के घर से अमृतलाल सूर्यवंशी के घर तक।
दक्षिण	अमृतलाल सूर्यवंशी के घर से हरप्रसाद राठौर के घर तक।
पश्चिम	हरप्रसाद राठौर के घर से उत्तर की ओर संजय दुबे के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 12 दाऊबाबा वार्ड**

उत्तर	सोमवार बाजार से पूर्व की ओर बिहारी लाल के घर तक।
पूर्व	बिहारी लाल के घर से दक्षिण की ओर लच्छी यादव घर होते हुए आनंद अग्रवाल के घर तक।
दक्षिण	आनंद अग्रवाल के घर से दीपक अग्रवाल के गोदाम तक।
पश्चिम	दीपक अग्रवाल के गोदाम से सोमवार बाजार तक।

**वार्ड क्रमांक 13 महावीर मंदिर वार्ड**

उत्तर	अमलचंद कर्ष के घर से सरार तालाब एवं प्रा.शाला सरारपार होते हुए सोन नदी तक।
पूर्व	सोन नदी से बाराद्वार जाने वाले मार्ग पर बने सोन नदी पुल तक।

दक्षिण बाराद्वार जाने वाले मार्ग पर बने सोन नदी पुल से महावीर मंदिर तक।  
पश्चिम महावीर मंदिर से अमलचंद कर्ष के घर तक।

#### वार्ड क्रमांक 14 छोटे गौटिया वार्ड

उत्तर हजारी सोनी के घर से ध्रुव राठौर के घर तक।  
पूर्व ध्रुव राठौर के घर से बंधवा तालाब दक्षिण पूर्वी किनारे से होते हुए दिलहरण राठौर के बाड़ी तक।  
दक्षिण दिलहरण के बाड़ी से राजेन्द्र पांडेय घर तक।  
पश्चिम राजेन्द्र पांडेय के घर से हजारी सोनी के घर तक।

#### वार्ड क्रमांक 15 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

उत्तर रहस बेड़ा से कन्हैया सूर्यवंशी के घर तक।  
पूर्व कन्हैया सूर्यवंशी के घर से दाउलाल करियारे के घर तक।  
दक्षिण दाउलाल करियारे के घर से छेदीलाल के घर तक।  
पश्चिम छेदीलाल के घर से रहसबेड़ा तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-63/2019/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-63/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar, the 12th July 2019

#### NOTIFICATION

No. F1-63/2019/18.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Saragaon Dist janjgir Champa as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Saragaon into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.

2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

### SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
01	Indira Gandhi Residential Ward
02	Gayatri Mandir Ward
03	Mahatma Gandhi Ward
04	Subhashchandra Bose Ward
05	Manka Dai Ward
06	Rajeev Gandhi Ward
07	Thakur Dev Ward
08	Pt. Shyamaprasad Mukherjee Ward
09	Bhagat Singh Ward
10	Ambedkar Ward
11	B.D.Mahant Ward
12	Daubaba Ward
13	Mahaveer Mandir Ward
14	Chhote Gautiya Ward
15	Dindayal Upadhyay Ward

### Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Saragaon

#### **Ward No. 01 INDIRA GANDHI RESIDENTIAL WARD**

NORTH-	From Uraiha Pond to East Side till SLRM Center.
EAST-	Form SLRM Center to South side till Bus Stand Makhan Hotel.
SOUTH-	Bus Stand Makhan Hotel to west side Mudkatti Mata Temple.
WEST-	Form Mudkatti Mata Temple to North side Uraiha Pond.

#### **Ward No. 02 GAYATRI MANDIR WARD**

NORTH-	From Rooftop plaza to east side till Sarar Pond North west shore.
EAST-	Sarar Pond North west shore to Yash Dhaba Chowk.
SOUTH-	From Yash Dhaba Chowk to Bus Stand Aatmaram Pandey Home.
WEST-	From Bus Stand Aatmaram Pandey Home to Rooftop plaza.

**Ward No. 03 MAHATMA GANDHI WARD**

- NORTH- Bus Stand Omprakash Rathore home to Narad Home via Satyanarayan Rathore home.  
EAST- From Narad Home to Devnarayan Home.  
SOUTH- From Devnarayan home to Jeetsingh Rathore Home.  
WEST- Jeetsingh Rathore Home to Bus Stand Omprakash Rathore home.

**Ward No. 04 SUBHASHCHANDRA BOSE WARD**

- NORTH- From Sanat nengi home to Bunkar home via Jagat Kenvat home.  
EAST- From Bunkar Bhavan to Hemant Rathore home via Mataru Rathore farm.  
SOUTH- From Hemant Rathore home to west side Chamar Singh home.  
WEST- From Chamar Singh home to Sanat Nengi Home via Surendra Dewangan & Ishwar Dewangan Home.

**Ward No. 05 MANKA DAI WARD**

- NORTH- From Ramlakhan Rathore home to Dhajaram Karsh Home via Moharsay & Jagsay Home.  
EAST- From Dhajaram Karsh to Ramnarayan Karsh Home.  
SOUTH- From Ramnarayan Karsh Home to west side Akhara Pond south west shore.  
WEST- Akhara Pond south west shore to South west coast to Ramlakhan Rathore Home.

**Ward No. 06 RAJEEV GANDHI WARD**

- NORTH- From Anjali Feuls to Ghanva Pond north east shore.  
EAST- From Ghanva Pond north east shore to Shiv Temple.  
SOUTH- From Shiv Temple to the Naktipar pond south west shore.  
WEST- Naktipar pond south west shore to Anjali Feuls via Chamra Talab.

**Ward No. 07 THAKUR DEV WARD**

- NORTH- From JDM School to Ravi Pandey home.  
EAST- Ravi Pandey home to New Market via Bhojram Yadav home.  
SOUTH- From New Market to Canal situated in north east Corner of Umashankar Suryavanshi home.  
WEST- From Canal situated in north east Corner of Umashankar Suryavanshi home to JDM School.

**Ward No. 08 Pt. SHYAMAPRASAD MUKHARJEE WARD**

NORTH-	From Daulal home to Laxman Suryavanshi home via Mata Choura Temple.
EAST-	From the Laxman Suryavanshi home to Irrigation Colony.
SOUTH-	From Irrigation Colony to Umashankar Suryavanshi home.
WEST-	Umashankar Suryavanshi home to Daulal home.

**Ward No. 09 BHAGAT SINGH WARD**

NORTH-	From Ravishankar Dubey home to east side till Arjun Suryavanshi home.
EAST-	From Arjun Suryavanshi home to south side till Bajrang home.
SOUTH-	From Bajrang home to Jaitkunvar home via Sonu Suryavanshi home.
WEST-	Jaitkunvar home to north side Ravishankar Dubey home.

**Ward No. 10 AMBEDKAR WARD**

NORTH-	From Om Prakash S/O Ramhan home to the bridge of Son river in Baradwar road.
EAST-	Bridge of Son river in Baradwar road to Raghunaths farm.
SOUTH-	Form Raghunaths farm to Ratanlal home.
WEST-	From Ratanlal home to Om Prakash S/O Ramhan Home.

**Ward No. 11 B.D. MAHANT WARD**

NORTH-	From Sanjay Dubey home to Ramkishan Sonvan home.
EAST-	From Ramkishan Sonvan home to Amritlal Suryavanshi home.
SOUTH-	From Amritlal Suryavanshi home to Harprasad Rathore home.
WEST-	Harprasad Rathore home to north side till Sanjay dubey home.

**Ward No. 12 DAUBABA WARD**

NORTH-	From Monday market to east side Bihari lal home.
EAST-	From Bihari lal home south side to Anand Agrawal home via Lachchhi Yadav home.
SOUTH-	From Anand Agrawal home to Deepak Agrawal godown.
WEST-	From Deepak Agrawal godown to Monday market.



**Ward No. 13 MAHAVEER MANDIR WARD**

- NORTH- From Amalchand Karsh home to Son River via Sarar Pond, Primary School Sararpar.  
EAST- From Son River to Baradwar Road Son River Bridge.  
SOUTH- Baradwar Road Son River Bridge to Mahaveer Temple.  
WEST- From Mahaveer Temple to Amalchand karsh's home.

**Ward No. 14 CHHOTE GAUTIYA WARD**

- NORTH- From Hajari Soni to Dhruv Rathore home.  
EAST- Dhruv Rathore home to Dilharan Rathore's Paddy via Bandhwa Pond south east shore.  
SOUTH- From Dilharan Rathore's Paddy to Rajendra Pandey home.  
WEST- From Rajendra Pandey home to Hajari Soni home.

**Ward No. 15 DINDAYAL UPADHYAY WARD**

- NORTH- From Rahasbeda to Kanhaiya Suryavanshi home.  
EAST- Kanhaiya Suryavanshi home to Daulal Kariyare home.  
SOUTH- From Daulal Kariyare home to Chhedilal home.  
WEST- From Chhedilal home to Rahasbeda.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
R. EKKA, Deputy Secretary.